



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 241]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 1979/श्रावण 8, 1901

No. 241]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 1979/SRAVANA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में  
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1979

अधिसूचनाएं

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 460 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 71/78-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) प्रथम पैरा में, शर्त (ग) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(घ) जहां विनिर्माता, उक्त सारणी के क्रम सं. 41 के सामन विनिर्दिष्ट वर्णन के माल पर, भारत सरकार के वित्त

मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 74/79-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 अथवा 75/79 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 के अधीन 1 अगस्त, 1979 के पूर्व छूट का लाभ उठा लिया है, या उक्त तारीख को या उसके पश्चात् छूट का लाभ उठाता है वहां इस अधिसूचना में अन्तिम छूट, 1 अगस्त, 1979 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से गृह उपभाग के लिए एक या एक से अधिक कारखानों से उक्त माल की प्रथम निकासी को, केवल ऐसे समीकित मूल्य तक लागू होगी जो तीन लाख सैंतीस हजार रुपये से अधिक नहीं हैं।”

(2) पैरा 2 का लाभ किया जाएगा ।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1979 को प्रवृत्त होगी ।

[237/79-कं. उ. श./फा. सं. बी. 23/36/78-टी आर यू]

टी. आर. रस्तगी, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th July, 1979

NOTIFICATIONS  
CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 460(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 71/78-Central Excise, dated the 1st March, 1978, namely :—

In the said notification,—

- (i) in the first paragraph, after condition (c), the following condition shall be inserted, namely :—

“(d) where a manufacturer, in so far as goods of the description specified against S. No. 41 of the said Table, has availed of the exemption before the 1st day of August, 1979, or avails of the exemption on or after the said date, under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 74/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979 or No. 75/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, the exemption contained in this notification shall, during the period commencing on the 1st day of August, 1979 and ending on the 31st day of March, 1980, apply only to the first clearances of the said goods for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories, upto an aggregate value not exceeding rupees three lakhs and thirty three thousand.”;

- (ii) paragraph 2 shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of August, 1979.

[237/79-CE/F. No. B. 23/36/78-TRU]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

## केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 461 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साइकिल में प्रयुक्त होने के लिए परिकल्पित अभिबंधन (लाकिंग) युक्तियों को, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मधु सं. 68 के अन्तर्गत आती हैं, उस पर उद्ग्राहीय उत्तने उत्पाद-शुल्क से छूट देती हैं जितना पांच प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[238/79-के. उ. श. / फा. सं. 354/60/79-टी आर यू]

जी. के. पिल्लै, अवर सचिव

## CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 461(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts locking devices designed for use in cycles and falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of five per cent *ad valorem*.

[238/79-CE/F. No. 350/60/79-TRU]

G. K. PILLAI, Under Secy.